

February 09, 2022

To
The Listing Department
Bombay Stock Exchange Limited
Department of Corporate Services
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street
Mumbai – 400 001

The Listing Department
National Stock Exchange of India
Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G
Bandra Kurla Complex
Mumbai – 400 051

Scrip Code: 532771

Trading Symbol: JHS

Sub: Submission of copies of Published Un-Audited Standalone & Consolidated Financial Results of the Company in daily newspapers for the third quarter and nine months ended 31st December 2021.

Dear Sir/Madam,

We hereby enclose copies of newspaper publication in which extract of Un-Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the third quarter and nine months ended 31st December 2021 are published on 9th February 2022 in Mint (English) and Business Standard (Hindi).

This is for your kind information and record.

Thanking you
Yours faithfully
For JHS Svendgaard Laboratories Limited


Avinash Pratap
Company Secretary & Compliance Officer
Encl: As above



Nvidia, SoftBank call off Arm deal over antitrust concerns

SoftBank revives plans to take Arm public, aims to launch IPO before the end of next fiscal year

Robert Wall
feedback@livemint.com

Nvidia Corp. and Japan's SoftBank Group Corp. are abandoning a blockbuster deal for the US semiconductor giant to acquire chip-design specialist Arm after regulators raised antitrust concerns.

The two companies said in a joint statement on Tuesday that they had agreed not to move forward with the transaction "because of significant regulatory challenges".

SoftBank, which owns Arm, said that it plans to pursue a public listing for the U.K.-based chip business.

The U.S. graphics chip giant in September 2020 agreed to buy Arm for \$40 billion from SoftBank in what would have been the chip industry's biggest deal ever. The nominal value of the deal had risen along with Nvidia's share price amid booming semiconductor demand.

The proposed deal quickly raised eyebrows with regulators and chip-making rivals. The Federal Trade Commission in December sued to block the transaction, alleging it would give Nvidia unlawful control over computing technology and designs that rivals need to develop their own competing chips.

The companies said SoftBank stands to pocket a \$1.25 billion breakup fee from the failed transaction with Nvidia.

This isn't the first time regulators have upended a massive chip deal. The U.S., in 2018, derailed Broadcom Inc.'s attempt to acquire its rival, Avago Technologies, for \$117 billion. In another chip deal, Qualcomm Inc., on national security grounds, Qualcomm's \$44 billion purchase of Dutch chip maker NXP Semiconductors NV fell apart in 2018 when China failed to give its regulatory approval.

Arm, based in Cambridge, England, is one of the world's most important behind-the-scenes semiconductor businesses. Companies such as Apple Inc., Qualcomm and Advanced Micro Devices Inc. rely on its design expertise for



SoftBank, which owns Arm, said it plans to pursue a public listing for the UK-based chip business. BLOOMBERG

some of their chips, with Arm acting as a kind of Switzerland to the chip industry—offering its designs to everyone without favoring any one company. Nvidia and Arm had vowed that wouldn't change if the deal went through.

SoftBank, which bought Arm almost six years ago for \$32 billion, had struggled to jump-start growth in the business. Before agreeing to sell Arm to Nvidia, SoftBank had considered taking the business public. SoftBank plans to complete its revived plans for an Arm IPO before the end of its next fiscal year, which starts in April.

"We'll go as quickly as we can," said Rene Haas, Arm's new chief executive. Mr. Haas, who joined the company in 2013, succeeds Simon Segars, who had been Arm's CEO since mid-2013 and has been with the company for 30 years.

Details of the IPO plan, including where Arm shares will be listed, remain

to be finalized, Mr. Haas said.

The U.S. isn't the only jurisdiction where the transaction was facing scrutiny. Britain's antitrust regulator last year began an in-depth investigation of the proposed transaction, citing both competition and national security concerns. The regulator had previously said that Nvidia's acquisition of Arm would lead to a realistic prospect of less competition, less innovation and more expensive products.

China also had begun a review of the deal, as had others.

For Nvidia Chief Executive Jensen Huang, the proposed acquisition of Arm represented one of his biggest bets to expand beyond the company's historic niche of making graphics processors used heavily in videogames and for artificial-intelligence calculations and cryptocurrency mining. It came in a year that Nvidia overtook Intel Corp. as America's biggest semiconductor company by market value and only a few months

after Apple said that it was ditching Intel in its Mac computers in favor of its own chip design with Arm ingredients.

More recently, Mr. Huang has his sights set on the so-called metaverse, a loosely defined group of online realms where users playing as avatars can hang out and participate in immersive experiences with others. Nvidia is offering software called Omniverse Enterprise that offers collaboration and simulation tools such as the ability to create interactive artificial-intelligence avatars.

SoftBank said Arm had enjoyed two years of strong business momentum, driven in part by demand for chips featuring the company's designs and used in cloud computing, automated driving and other applications.

Mr. Haas said that with the uncertainty over the Nvidia transaction now resolved, Arm was set to pursue a growth strategy.

Mr. Huang said Nvidia would continue to work with Arm as a licensee. ©2022 DOW JONES & COMPANY, INC

THE WALL STREET JOURNAL.

Credit Suisse cuts bonus pool about 10% after pushback

Bloomberg
feedback@livemint.com

Credit Suisse Group AG is cutting its 2021 bonus pool by about 10% after Swiss regulators pushed back on higher pay following the bank's worst year since the financial crisis, people with knowledge of the matter said.

The Swiss lender was forced to reverse plans to boost variable compensation after Finma asked it to weigh significant cuts to the pool. The people said, asking not to be identified discussing internal matters. The final overall bonus number may still vary slightly and individual pay will depend on the business unit, they said.

Credit Suisse was able to avoid deeper cuts after it changed its bonus structure, including the ability to claw back cash if employees leave within three years, they said. Those payments can be booked as loans and were a more palatable solution for the regulator, the people said.

The pay reductions come at a particularly precarious time for Credit Suisse after it was buffeted by the twin scandals of Archegos Capital Management and Greensill last year. The bank is grappling with the need to satisfy regulators after steep losses, while staying competitive on pay to avoid defections, particularly as Wall Street rivals such as JPMorgan Chase & Co. and Goldman Sachs Group are increasing pay. Credit Suisse and Finma both declined to comment on the bonus pool and negotiations.

The Swiss bank surprised employees late last month with a new bonus structure that included clawback provisions. Staff making \$250,000 or more a year will receive a larger part of their variable compensation in upfront cash,



Credit Suisse had to reverse plans to boost variable compensation after Finma asked it to weigh significant cuts to the pool. REUTERS

though have to agree to pay back a pro-rata portion if they leave within three years. The changes reflect a "difficult year" and will "satisfy our key stakeholders while also allowing us to compensate our employees fairly," Credit Suisse said.

The clawbacks have caused dissatisfaction within the bank, according to conversations with several insiders who asked for anonymity. Some are questioning the value of staying on if they have to pay back the cash, while others are mulling exit strategies that would let them keep at least some of the bonus. Some of those planning to stay are questioning the incentive value.

Some employees in the wealth and Swiss bank units are also unhappy about how employees across all divisions are paying the price for the \$5.5 billion in Archegos losses stemming from the investment bank, especially after management emphasized that future investments would go to wealth management, the people said.

Despite its efforts to keep talent, Credit Suisse is bracing for a potential renewed wave

of departures, one of the people said. That's because peers such as JPMorgan Chase & Co. and Goldman Sachs Group Inc. have raised bonuses by 40% and 50% respectively for their investment bankers. Others in Europe have followed suit, even if increases there are more measured.

Last year, the 2020 bonus pool decreased by 7% in the wake of losses from its relationship with Luckin Coffee Inc. and a writedown on a hedge fund stake.

The bank also suspended the bonuses of some top managers when Archegos and Greensill collapsed within weeks of each other. Credit Suisse is still weighing clawbacks over the matter, once the results from a probe into the Greensill situation are available.

Credit Suisse was forced to hand out off-cycle bonuses and retention payments as more than 50 managing directors departed its investment banking division after Archegos. It also offered selective mid-year salary increases to top wealth managers, people familiar with the payments said in July.

The final overall bonus number may still vary slightly and individual pay will depend on the business unit

SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION

ADVERTISMENT DEPARTMENT

Dr. Shyama Prasad Mukherjee Civic Centre (25th Floor), Jawaharalal Nehru Marg, New Delhi-110002, Ph. No. 011-2322-7511

E-TENDER NOTICE

Bids are invited on behalf of Commissioner, SDMC through following three different e-Tenders from eligible bidders:-

1. E-Tender Notice No. CO/Advt/E-Tender-16/2021-22/SDMC/NIT/D-846 dated 08.02.2022 for allotment of advertisement rights through Unipole Clusters/Individual Unipole sites under the jurisdiction of SDMC on monthly license fee basis in two bid system (i.e. Technical and Financial) for an initial period of three years.
2. E-Tender Notice No. CO/Advt/E-Tender-17/2021-22/SDMC/NIT/D-847 dated 08.02.2022 for allotment of advertisement rights through LED Clusters/Individual LEDs under the jurisdiction of SDMC on monthly license fee basis in two bid system (i.e. Technical and Financial) for an initial period of three years.
3. E-Tender Notice No. CO/Advt/E-Tender-18/2021-22/SDMC/NIT/D-848 dated 08.02.2022 for allotment of advertisement rights through building/wall wraps and LED screen on the facade of multilevel puzzle parking, central market, Lajpat Nagar, central zone on monthly license fee basis under the jurisdiction of SDMC on monthly license fee basis in two bid system (i.e. Technical and Financial) for a period of five years.

The Last Date of Submission of bids in all above e-tenders is : 01.03.2022, Till 16.00 Hours.

The detailed Tender documents are available on SDMC's website i.e. www.mcdonline.nic.in and https://etenders.gov.in/eprocure/app

Commercial Officer,
RO No. 71/DPI/S/2021-22 Advertisement Department

DELHI JAL BOARD, GOVT. OF NCT OF DELHI

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (C)DR-II
DELHI GATE STP PHASE-II, OPPOSITE DELHI SECRETARIAT, IP ESTATE, NEW DELHI-110002
E-mail: secdr2@gmail.com

NIT No. 5 (2021-22)EE(C) Dr II (Tender ID: 2022_DJB_21627_1)

S. No.	Name of Work	Amount put to tender (in Lakhs)	Earnest Money (Rs.)	Non refundable Tender fee (in Rs)	Date of release of tender in e-procurement solution	Last date/time of receipt of tender through e-procurement solution
1.	Providing, laying 1626 MM dia (OD) MS rising main from ring road pumping station AT Maharani Bagh to Okhla WWTP through the alignment in Yamuna Flood Plane.	DBO Basis 108,00,000/-	Rs 1500/-	1500/-	05.02.2022	04.03.2022 up to 03.05 PM

ISSUED BY P.R.O. (WATER) "STOP CORONA: Wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand Hygiene" (RAJIV SHARMA) Advt. No. J.S.V. 1104 (2021-22) A. Executive Engineer (C) DR-II

DELHI JAL BOARD, GOVT. OF NCT OF DELHI

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (T) M-6
D-BLOCK, MOTI NAGAR, NEW DELHI-110015

PRESS NIT No. 69 (2021-22)

Item No.	Name of Work	Estimated Cost	Date of release of tender in E-procurement solution	Last date/time of receipt of tender through e-procurement solution
1.	Replacement of old/ rusted water lines in A Block Lok Vihar, Pitampura in Tri Nagar AC-16 under AEE (M-16).	Rs. 62,08,711/-	Tender ID No. 2022_DJB_21627_6_1 on 07.02.2022 at 03:31 P.M	18.02.2022 Up to 3:00 PM
2.	Providing and laying 450 mm dia outfall sewer line by trenchless technology from Rani Bagh market to 1600 mm dia trunk sewer line on Parwana Road under AEE M-15 in AC-15.	Rs. 1,54,21,159/-	Tender ID No. 2022_DJB_21627_6_2 on 07.02.2022 at 03:37 P.M	18.02.2022 Up to 3:00 PM
3.	Improvement of sewerage system by PIPE BURSTING method by replacement of deep/damaged 350 mm dia sewer line from H. No. 508 A to 492 Rishi Nagar under AEE (M-15) in AC-15.	Rs. 39,16,800/-	Tender ID No. 2022_DJB_21627_6_3 on 07.02.2022 at 03:52 P.M	18.02.2022 Up to 3:00 PM
4.	Improvement of sewerage system by PIPE BURSTING method by replacement of deep/damaged 350 mm dia sewer line from H. No. 392 to 345 Rishi Nagar under AEE (M-15) in AC-15.	Rs. 43,34,112/-	Tender ID No. 2022_DJB_21527_6_4 on 07.02.2022 at 04:00 P.M	18.02.2022 Up to 3:00 PM
5.	Replacement of old/damaged and fully silted sewer line by PENTODE METHOD from UGR BC (East block) to Delhi police colony, Shalimar Bagh, AC-14 under AEE(M)-14	Item Rate EMD Rs. 1,70,000/-	Tender ID No. 2022_DJB_21627_6_5 on 07.02.2022 at 04:05 P.M	18.02.2022 Up to 3:00 PM

Further details in this regard can be seen at <https://govtprocurement.delhi.gov.in>

ISSUED BY P.R.O. (WATER) "STOP CORONA: Wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand Hygiene" (Trilok Chandi) Advt. No. J.S.V. 1106(2021-22) Ex. Engineer (T) M-6

JHS SVENDGAARD LABORATORIES LIMITED

Regd Office: Trilokpur Road, Kheri (Kala-amb), Tehsil-Nahan, Distt. Simour, Himachal Pradesh-173030, INDIA
CIN-L74110HP2004PLC027558

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31st DECEMBER, 2021

(Rs. in lakh)

Particulars	Quarter Ended 31st Dec. 2021	Quarter Ended 30th Sep. 2021	Quarter Ended 31st Dec. 2020	9 Months Ended 31st Dec. 2021	9 Months Ended 31st Dec. 2020	Year Ended 31st Mar. 2021
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total income from operations	2385.29	2633.16	2,769.79	7,414.76	7,854.05	10,830.92
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional item and/or extraordinary items)	(38.13)	70.31	44.41	16.28	(154.94)	96.78
Net Profit / (Loss) for the period (before tax after exceptional and/or extraordinary items)	(38.13)	70.31	44.41	16.28	(154.94)	96.78
Net Profit / (Loss) for the period (after tax exceptional and/or extraordinary items)	(2.47)	47.00	10.64	15.98	(151.00)	134.24
Total comprehensive income for the period	(0.26)	49.22	10.26	22.57	(149.70)	143.04
Equity Share Capital (Face value of Rs 10 each)	6,440.05	6,440.05	6,090.05	6,440.05	6,090.05	6,440.05
Reserves (Excluding Revaluation Reserves)						12,429.50
Earnings per equity share (of Rs 10 each)						
(a) Basic (Rs)	0.04	0.04	0.02	0.05	(0.03)	0.20
(b) Diluted (Rs)	0.04	0.04	0.02	0.05	(0.03)	0.20

Particulars	Quarter Ended 31st Dec. 2021	Quarter Ended 30th Sep. 2021	Quarter Ended 31st Dec. 2020	9 Months Ended 31st Dec. 2021	9 Months Ended 31st Dec. 2020	Year Ended 31st Mar. 2021
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total income from operations	2,176.41	2,450.78	2,591.00	6,878.97	7,430.57	10,250.93
Profit / (Loss) for the period (after extraordinary activities but before tax)	64.27	65.95	99.75	179.06	83.84	319.71
Profit / (Loss) for the period (after extraordinary activities and tax)	46.27	44.72	50.73	124.48	1.76	276.61
Total comprehensive income for the period	47.45	45.90	50.35	128.02	0.60	281.32

Notes: The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter ended and nine months ended 31st Dec 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter ended and nine months ended 31st Dec 2021 are available at the website of the BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) and also on company website www.svendgaard.com.

For and behalf of JHS Svendgaard Laboratories Limited
sd/
NIKHIL NANDA (Managing Director)
DIN 00051501

Date: 08 February 2022
Place: New Delhi

Dakshin Gujarat Vij Company Ltd.

CIN U40102GJ2003SC042809
Regd. & Corp. Office: 'Urja Sadan', Nana Varachha Road, Kapodara Char Rasta, Surat 395 006 GUJARAT

Tender Notice

DGVCL Toll Free No. 19123 (or 1800 233 3003)

Tender: DGVCL/SD&P/202201/S.I.T.C of underground work at Dharampur Nagarpalika area or anywhere in Valsad Circle, under any Scheme. Details are available on www.dgvcl.com (for view and download tender documents) and www.dgvcl.nprocure.com (for view, download and online tender submission).

Note: Bidders may visit the Company website/s for regular updates till opening of the tender.

ACE (SD&P), DGVCL, Surat.

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRANSMISSION COMPANY LIMITED

(A Government of West Bengal Enterprise)
Registered Office: Vidyut Bhawan, Block-DJ, Sector-1, Bidhanagar, Kolkata-700 061
CIN: U40101WB2007SC113174 • web: www.wbsctcl.in

The Chief Engineer (Procurement) invites e-Tender for the following works:

NIT No.: CE(PJ)/WBSETCL/315 & 200 MVA Trf/21-22/233
Date: 09.02.2022
Procurement of 315 MVA, 400/220/33 kV Auto Transformer (3rd call) & 200 MVA, 220/132/33 kV Auto Transformer (4th call).
Bid documents can be downloaded from 09.02.2022, 11:00 A.M. and shall be submitted (online) up to 04.00 P.M., 07.03.2022.

NIT No.: CE(PV)/WBSETCL/BPI/21-22/234
Date: 11.02.2022
Procurement of 132 kV & 33 kV Solid Core Bus Post Insulators.
Bid documents can be downloaded from 11.02.2022, 11:00 A.M. and shall be submitted (online) up to 04.00 P.M., 09.03.2022.

Interested bidders may visit the following websites: <https://wbenders.gov.in>, <https://tender.wb.nic.in> and www.wbsctcl.in for details. ICA-12911/3/2022

DELHI JAL BOARD, GOVT. OF NCT OF DELHI

OFFICE OF THE DEPUTY SUPERINTENDING ENGINEER(C)DR-XV
JAL SADAN ANNEXE, LAJPAT NAGAR, NEW DELHI-110024
E-mail: secdr15.djb@gmail.com

NIT No. 5/EE(C) DR-XV (2021-22)

Item No.	Name of Work	Tender Amount	Tender fees	Completion Period	Date of release of tender through e-procurement solution	Last date/time of receipt of tender through e-procurement solution
1.	Providing/Laying/Joining internal/peripheral sewer lines in Devli & Sangam Vihar GOC(U/A Col. reg. no. 354, 390, 397, 433, 492, 603, 866, 714, 813, 868 and 873, 1296 A&B) Tender ID: 2022_DJB_215555_1	Rs. 23,47,84,435/-	Rs. 1500/- Non refundable	8 Months	07.02.2022 At 5.20 pm onwards	28.02.2022 at 03.10 PM

ISSUED BY P.R.O. (WATER) "STOP CORONA: Wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand Hygiene" DEPUTY S.E.(C) DR.XV

DELHI JAL BOARD, DELHI SARKAR

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (T)/A.C.E.(M)-4
LUCKNOW ROAD, TIMAR PUR, DELHI-110054

Short NIT No. 75 (Item no. 1, 2) (2021-22) E.E.(T)/A.C.E.(M)-4

S. No.	Name of work	Estimated Cost (Rs.)	Date of release of tender in e-procurement solution	Earnest Money	Tender fee (Non-refundable)	Last date/time of receipt of tender through e-procurement solution
1.	Intercepting waste water flowing in drain at Shah Alam Bandh Road in SPS Jahangir Puri for treatment at STP Coronation Pillar under A.C.E. (M)-4 (Re-invite). I.D. 2022_DJB_216258_1	3,74,57,187/-	07.02.2022 03 P.M. onward	7,49,200/-	1500/-	Technical bid will be received 18.02.2022, 3.00 PM & opening of financial bid after completion of technical bid & confirmation of EMD from Bank.
2.	Trapping of GTK drain No. 1 discharge of CETP in Industrial state AC-18, under ACE (M)-4. I.D. 2022_DJB_216258_2	1,89,19,712/-	07.02.2022 03 P.M. onward	3,78,400/-	1000/-	Technical bid will be received 18.02.2022, 3.00 PM & opening of financial bid after completion of technical bid & confirmation of EMD from Bank.

Further details in this regard can be seen at <https://govtprocurement.delhi.gov.in>

ISSUED BY P.R.O. (WATER) "STOP CORONA: Wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand Hygiene" (S.K SINGH) Advt. No. J.S.V. 1103(2021-22) EXECUTIVE ENGINEER-T(M)-4



SMS reachbs to 57575 or email order@bmail.in

Business Standard

Insight Out

एसजेवीएन लिमिटेड SJVN Limited (भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उद्यम) (A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.)

नाथपा झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन प्रैस नोटिस ई-टेंडर नं.: पैकेज (पी) 275 (ओ एण्ड एम) एसजेवीएन लिमिटेड की ओर से एल्ट्रा ग्रेड "पैकेज (पी) 275 (ओ एण्ड एम)/2022 नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना में हाई कोटिंग सुविधा के लिए इंडस्ट्रियल गैस के सिलेंडरों की आपूर्ति के लिए"

जेएचएस स्वेन्डगार्ड लैबोरेटरीज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: त्रिलोक रोड, खेड़ी (काला-अम्ब), तहसील-नाहान, जिला-सिरमौर, हिमाचल प्रदेश-173030, इंडिया

जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

मुख्या कार्यालय : नेशनल इश्योरेंस बिल्डिंग, 6ठी मंजिल, 14 जमशेद टाटा रोड, चर्चिंगट, मुम्बई-400020 शाखा कार्यालय : एससीओ नं. 44, सेक्टर-31 डी, चण्डीगढ़, दूरभाष नं. (0172) 2600444/46

सन्देश : प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के उपनियम (1) के तहत कब्जा सूचना

Table with 6 columns: क्र.सं., आवेदक/सह-आवेदक/पुत्र/पत्नी/फाइल सं., पता, मांग सूचना में देने की तिथि, श्रेण खता, संकेतिक कब्जे की तिथि. Contains multiple entries for property acquisition.

Table with 6 columns: क्र.सं., आवेदक/सह-आवेदक/पुत्र/पत्नी/फाइल सं., पता, मांग सूचना में देने की तिथि, श्रेण खता, संकेतिक कब्जे की तिथि. Contains multiple entries for property acquisition.